

HIN1B08b

(Compréhension de l'écrit)

Cours – 6

1. Donnez l'antonyme des mots suivants :

असली/नकली	अगला/पिछला	मूर्ख/बुद्धिमान	पूर्व/पश्चिम	दक्षिण/उत्तर
दूर/पास, निकट	वृद्ध/जवान, युवा	छोड़ना/पकड़ना	आखिरी/पहला	उपयोगी/बेकार

2. Quel est le sens des mots suivants (au moins 12) :

शौक passe-temps	शिकार chasse	शौचालय toilettes	चुपचाप silencieux	ज्यातिषशास्त्र astrologie
उलझन embrouille/difficulté	युक्ति astuce	तिराहा trois chemins	सड़क route	निडर sans crainte
तिनका brin	सम्राट empereur	शर्त pari	चोटी sommet	तहखाना cachot
युवक jeune homme	अन्य autre	परिपक्व mûr	अनुभव expérience	ग्वाला laitier

3. Que veulent dire les expressions suivantes :

अपनी बात सिद्ध करना prouver	स्वीकार करना accepter
अपनी अक्ल चलाना utiliser son intelligence	परिभाषा देना donner la définition
किसी चीज़ का नाटक करना faire semblant	ध्यान देना prêter attention
कान लगाकर सुनना écouter attentivement	गायब होना disparaître
किसी की परीक्षा लेना tester quelqu'un	शत-प्रतिशत cent pour cent

नकल में भी अक्ल

एक टोपी képi बेचने वाला था वह शहर से टोपियाँ लाकर गाँव में बेचा करता था एक दिन वह दोपहर के समय जंगल में जा रहा था थककर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया उसने टोपियों की गठरी एक तरफ़ रख दी ठंडी हवा चल रही थी लेटते ही टोपी वाले को नींद आ गई।

उस पेड़ पर कुछ बन्दर बैठे हुए थे उन्होंने देखा कि वह मनुष्य सो गया है तो वे पेड़ से नीचे उतर आए। बन्दरों ने देखा कि मनुष्य के पास ही उसकी गठरी baluchon पड़ी है। उन्होंने गठरी खोल दी जिसमें बहुत-सी टोपियाँ थीं। बन्दर नकलची imitateur तो होते ही हैं उन्होंने देखा कि मनुष्य ने सिर पर टोपी पहनी हुई है। बस हर एक बन्दर ने अपने-अपने सिर पर एक-एक टोपी पहन ली। अब सारे बन्दर एक-दूसरे को देखकर हँसने लगे, थोड़ी देर बाद वे सब खुशी से नाचने कूदने लगे उनमें से कुछ पेड़ पर जा बैठे।

जब वह आदमी जागा तो उसने बन्दरों को टोपियाँ पहने देखा। उसे बड़ा दुःख हुआ। उसका सारा सामान बंदरों ने लूट लिया था। अब वह क्या करे? दूसरी टोपियाँ कहाँ से लाये? बाज़ार में वह क्या बेचेगा? वह बंदरों को देखता रहा जो उसे उत्सुकता curiosité से घूरे जा रहे थे। कुछ सोच कर वह मुस्कराया और फिर उसने अपने सिर से टोपी उतार कर जमीन पर फेंक दी और ज़ोर से बोला -- "अरे बंदर भैया, लेलो यह भी ले लो!" बन्दर तो नकल किया ही करते हैं। उन्होंने भी टोपीवाले की देखा-देखी अपने-अपने सिर से टोपियाँ उतार कर जमीन पर पटक दीं जिन्हें टोपीवाले ने झट से उठा लिया। फिर उसने पत्थर pierre मारकर बन्दरों को दूर भगा दिया। टोपियाँ इकट्ठी ensemble करके गठरी में बाँध लीं और गठरी सिर पर रखकर वह गाँव की ओर चल पड़ा।

सीख - नकल में भी अक्ल intelligence की जरूरत होती है।

4. Répondez aux questions suivantes en français:

1. टोपी बेचनेवाले ने जंगल में क्या किया ?
2. बंदरों ने क्या किया ?
3. टोपीवाला क्यों दुखी हुआ।
4. टोपीवाले को टोपियाँ वापस कैसे मिलीं ?
5. बंदरों को दूर करने के लिये टोपीवाले ने क्या किया ?
6. इस कहानी की सीख क्या है ?

5. Quels sont ces métiers en hindi ?

सुनार orfèvre	लुहार ferronnier	कुम्हार potier	सैनिक militaire	वैद्य, डॉक्टर médecin
हलवाई pâtissier	अध्यापक enseignant	पुलिसवाला policier	चालक chauffeur	मंत्री ministre